

कहाँ हैं प्यार के तथाकथित ठेकेदार?

आइये जरा ऐडवा वालो, एपवा वालों, हरियाणा इन्साफ सोसाइटी वालो, महिला अधिकार वालो, मीडिया में बैठ के ग्रामीण भारत में प्यार के तौर-तरीके निर्धारित करने की अदम्यता भरने वालो, क्या आपको किसी को पता नहीं लगा क्या कि बॉलीवुड नगरी में एक लव जोड़ी पे बिछुड़ने का दबाव बनाया जा रहा है?

अखबारों में खबरें आ रही हैं, कोई कह रहा है कि तनूजा आंटी ने तनीषा को अरमान के साथ बिग-बॉस हाउस में अंतरंग होने पर डांट लगाई है, कोई कह रहा है कि तनूजा आंटी तनीषा पर उनके परिवार की नाक कटवा देने (काबिले गौर है कि क्या बॉलीवुड में भी प्यार करने को नाक कटवा देना समझा जाता है?) की वजह से गुस्सा हैं, तो कोई कह रहा है कि तनीषा अब अरमान को फुल इग्नोर (full ignore) मार रही है।

कहाँ हो भाई लोगो, जरा सम्भालो मोर्चा, ठीक वैसे ही जैसे ग्रामीण भारतीय आँचल में किसी परिवार विशेष द्वारा लव पे पहरा बिठाने पे सँभालते हो।

क्यों मैडम जगमति सांगवान, क्यों कविता कृषणन जी, क्यों रंजना कुमारी जी, क्यों दौलत राम चौधरी जी क्या आप लोगों को अभी तक खबर नहीं मिली कि कैसे इस जोड़ी को तोड़ने की कवायदें शुरू हो गई हैं? मुझे आश्चर्य हुआ जानकार कि अभी तक आपमें से किसी कि प्रतिक्रिया नहीं आई।

और नहीं तो कम से कम एक-दो टी. वी. डिबेट ही करवा दो, कुछ सवालियों के साथ। जैसे कि क्या वाकई में तनीषा को अरमान से मिलने से रोका जा रहा है या उसको इग्नोर मारने को कहा गया है? क्या तनीषा को तनूजा आंटी ने वाकई में डांट लगाई है और लगाई है तो फिर वो कौनसे सदी के भारत में जी रही हैं ? यहाँ तो कोई गाँव-गोत्र वाले पेंच भी उलझे नहीं नजर आते, तो फिर क्यों खड़ी की जा रही है दो प्रेमियों के बीच ये दीवार? वगैरह-वगैरह, नहीं?

उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही आप लोगों की तरफ से इसपे कोई प्रतिक्रिया सुनूँ या फिर सिर्फ ग्रामीण आँचल पर जा के ही सारे मानवाधिकार और लिंग-समानता के भाषण सूझते हैं आप लोगों को?

मुझे तो वो गाना कुछ इस अंदाज में याद आ रहा है कि "जरा सामने तो आओ छलिये, यूँ छुपने में क्या राज है.....प्यार पे पहरा लगा है वहाँ, जाइये आपकी दरकार है!"

Phool Kumar Malik

Sources :

- 1) http://www.enevpaperofindia.com/News/Tanisha-Mukherjee's-unbelievable-u-turn-news_1260.aspx
- 2) <http://daily.bhaskar.com/article/ENT-TV-bigg-boss-7-tanuja-scolds-tanishaa-says-her-intimacy-with-armaan-has-upset-the-w-4478177-PHO.html?seq=1>